



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2386]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2012/अग्रहायण 22, 1934

No. 2386]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2012/AGRAHAYANA 22, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2887(अ).—भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1642(अ), तारीख 15 जुलाई, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 20 जुलाई, 2012 में प्रकाशित की गई थी और रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई थी, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दो स्थानीय समाचार पत्र, अर्थात् "हिन्दुस्तान", तारीख 23 अगस्त, 2012 और "द इण्डियन एक्सप्रेस", तारीख 23 अगस्त, 2012 में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संचयन सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : पलवल

तालुक का नाम : पलवल

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	प्लॉट/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	(1) परौली	व्यक्तिगत	कृषि	53/16	0.0002	जय चन्द पुत्र मोहन लाल पुत्र दल सहाय।
		व्यक्तिगत	कृषि	53/25	0.0002	जय चन्द पुत्र मोहन लाल पुत्र दल सहाय।
		व्यक्तिगत	कृषि	54/21	0.0240	राम चन्द पुत्र लहरी, सतबीर पुत्रान घेती, श्री चन्द्र विधवा दाल चन्द, राज कुमार, गुलाब पुत्रान श्रीमती अनीता देवी पुत्री किशन लाल एवं श्रीमती शान्ती देवी विधवा जगदीश पुत्र और कोयल पुत्र जुगल किशोर जय चन्द पुत्र मोहन लाल।
		व्यक्तिगत	कृषि	56/16	0.0401	रतनलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र कंवर सिंह
		व्यक्तिगत	कृषि	56/17	0.0044	रतनलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र कंवर सिंह
		व्यक्तिगत	कृषि	52/23	0.0001	पंचायत देह।
		व्यक्तिगत	कृषि	52/24	0.0022	पंचायत देह।
	(2) दहलाका	व्यक्तिगत	कृषि	3/17	0.0057	श्रीमती कमलेश पत्नी कृष्ण चन्द पुत्र जयलाल, ओमवीर, महेन्द्र, महेश पुत्रान बुद्धराम पुत्री बुद्धी पुत्र कौर शादुराम पुत्र डुंगर सिंह एवं महर चन्द पुत्र हरचन्द, हुकम सिंह, तेजराम, घेतराम, मोहर राम, सतीश कुमार पुत्रान सोहनलाल, सतबीर सिंह, विजय सिंह पुत्रान भगवत, मन्जू पुत्री हुक्मचन्द, विजयपाल पुत्र प्रहलाद।
		व्यक्तिगत	कृषि	4/14	0.0011	श्रीमती कमलेश पत्नी कृष्ण चन्द पुत्र जयलाल, ओमवीर, महेन्द्र, महेश पुत्रान बुद्धराम पुत्री बुद्धी पुत्र कौर शादुराम पुत्र डुंगर सिंह एवं महर चन्द पुत्र हरचन्द, हुकम सिंह, तेजराम, घेतराम, मोहर राम, सतीश कुमार पुत्रान सोहनलाल, सतबीर सिंह, विजय सिंह पुत्रान भगवत, मन्जू पुत्री हुक्मचन्द, विजयपाल पुत्र प्रहलाद।
	(3) कलवाका	व्यक्तिगत	कृषि	61/1	0.0993	आजाद, जुबैर खान पुत्र नसीब खान पुत्र बदलू शरीफ, हनीफ खान, जान मोहम्मद पुत्र बदलू पुत्र निवाज खान लहरू पुत्र नूर खान पुत्र साप खान, हुसमत, समसुदीन पुत्र नूर पुत्र साप खान, अख्तर, ईर्या पुत्र सल्लू पुत्र नूर, अहमद, ईसाब पुत्र पहलू पुत्र नूर, अजरू पुत्र ईदरिस पुत्र पहलू बिला रहमान साबू पुत्र उमर मोहम्मद व अली शैख पुत्र अकबर बिला रहन मोहरम पुत्र हरगोविन्द मुखरिम ग्राम वासी; रिछपाल पत्नी रामबीर सिंह पुत्र नरथी व श्रीमती जगवती पत्नी रयाम सिंह पुत्र नरथी सिंह व रमेश देव पत्नी धर्मसिंह पुत्र नरथी सिंह व श्रीमती बिमला देवी पत्नी करम सिंह पुत्र नरथी सिंह, श्रीमती जगवती पत्नी आजाद सिंह पुत्र नरथी निवासी पत्नी जिला फरीदाबाद।
		व्यक्तिगत	कृषि	56/12	0.0345	दीलसुख पुत्र भीकू पुत्र भोला 1555/1710 भाग एवं शीशपाल पुत्र दीलसुख।
	(4) छपरीला	व्यक्तिगत	कृषि	53/5/1	0.0134	वेद प्रकाश, भ्रम प्रकाश पुत्र बलबीर सिंह समभाग 1/3 भाग, जय प्रकाश, भारत सत्य प्रकाश, पुत्र प्रवीन सिंह समभाग 2/3 भाग निवासी।
		व्यक्तिगत	कृषि	49/16	0.0008	शोभराम पुत्र सावलीयान पुत्र बलवन्त
		व्यक्तिगत	कृषि	49/17/1/1	0.0958	शोभराम पुत्र सावलीयान पुत्र बलवन्त
		व्यक्तिगत	कृषि	50/6	0.0007	जगराम पुत्र श्रीमती शिव कौर पुत्रीयान रामलाल।
		व्यक्तिगत	कृषि	50/11	0.0003	शहदेव, जयदेव पुत्र 41/100 भाग; श्रीमती महिन्द्रा 9/100 भाग विधवा; गिराज पुत्र देवकरण व खिल्लन पुत्र देवकरण पुत्र खरकिया 1/2 भाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	50/15	0.0004	जसराम पुत्र श्रीमती शिवकौर पुत्रीयान रामलाल गाम वासी।
		व्यक्तिगत	कृषि	50/20	0.0004	शोभराम पुत्र सावलीयान पुत्र बलवन्त।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(5) पिस्थल					
		व्यक्तिगत	कृषि	23//22	0.0076	श्यामलाल पुत्र व श्रीमती हरमुखी, हरप्यारी, सोमवती, बलवन्ती पुत्रीयान गयासो पुत्री लज्जाराम, धनश्याम पुत्र वीरवती पुत्री लज्जा राम, सुखदेव व पुत्र जगवीर सिंह, जगत सिंह पुत्र रणजीलाल व गजेन्द्र पुत्र मदनलाल खानाकाशत व किरोडीमल पुत्र मनभार व प्रेम सिंह पुत्र हुकम सिंह व दीपक पुत्र प्रेम सिंह व राम किशन, राम सिंह, किशन सिंह पुत्रान चोख राम पुत्र रामा सचिन कुमार पुत्र श्रीमती सत्यावती विधवा रघुवीर समभाग (काश्त मौसमीयन)
		व्यक्तिगत	कृषि	23//26	0.0654	रतनलाल पुत्र रामफूल पुत्र रूपराम, हेतराम पुत्र रूपराम पुत्र मलखान, गंगादास उफ राजपाल पुत्र राममजन पुत्र लख्खा, प्रेम प्रकाश आदि मु० खेवट नं० 187; श्रीमती धनवती विधवा व लीलवती पुत्र व लेखराम, रामसिंह पुत्र करण सिंह पुत्र धनश्याम, बालेराम पुत्र दुर्गा प्रसाद पुत्र लालसिंह; जगराम पुत्र दुर्गाप्रसाद पुत्र लालसिंह पुत्र धानसिंह आदि मु० खेवट नं० 201; श्रीमती शान्ति आदि मु० खेवट नं० 212, प्यारे पुत्र जारावर पुत्र रंगलाल।
		व्यक्तिगत	कृषि	37//12	0.0037	विजेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, राजपाल पुत्र श्रीचन्द पुत्र ताता राम; हरि सिंह पुत्र श्रीमती भगवती विधवा और श्रीमती श्यामवती, किरण वती, हरवती पुत्रीयान नत्थी पुत्र मवासी सम भाग; श्रीमती भागवती देवी पत्नी खुशीराम ग्राम वासी
		व्यक्तिगत	कृषि	36//17/2	0.0118	श्रीमती कस्तूरी विधवा व नरेश कुमार, रमेश पुत्र नन्दलाल पुत्र रामजीलाल समभाग 1/3 भाग; बसन्त लाल पुत्र रामजीलाल पुत्र प्रताप 1/3 भाग; चौखराम पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीलाल 1/3 भाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	36//18/2	0.1014	श्रीमती कस्तूरी विधवा व नरेश कुमार, रमेश पुत्र नन्दलाल पुत्र रामजीलाल समभाग 1/3 भाग; बसन्त लाल पुत्र रामजीलाल पुत्र प्रताप 1/3 भाग; चौखराम पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीलाल 1/3 भाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	36//24/2	0.0117	धर्मपाल, महावीर, अशोक, जगवीर पुत्रान रतीराम पुत्र किरारी समभाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	36//27	0.0548	नत्थी मु० खेवट नं० 336, श्रीमती धापू आदि मु० खेवट नं० 347; फतेह राम पुत्र नत्थन पुत्र हुक्मी; श्रीमती कस्तूरी आदि मु० खेवट नं० 1066; देवरतन आदि मु० खेवट नं० 1067; नवल सिंह आदि मु० खेवट नं० 1076 ग्राम वासी।
		व्यक्तिगत	कृषि	49//11/1	0.0223	श्रीमती शारदा रानी पत्नी नवीन कुमार, नरेश कुमार, हरिओम पुत्र रमेश चन्द पुत्र रूप चन्द 1/3 समभाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	51//2	0.0757	जगदीश पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र फते राम।
		व्यक्तिगत	कृषि	51//26	0.0899	रवि कप्तान पुत्र वीर सिंह पुत्र हरदयाल; आजान, दयानन्द पुत्र सफीया पुत्र हरदयाल; साहिल पुत्र धर्मवीर पुत्र हरदयाल; श्रीमती खिलिया विधवा फतेहराम; नोहर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्र श्रीमती सुनहरी पुत्री बालू; गिराज पुत्र फतेहराम; राजकुमार, जगदीश पुत्र गोविन्द राम।
		व्यक्तिगत	कृषि	49//26	0.0337	श्रीमती हरजीत कौर पत्नी जसवन्त सिंह पुत्र हजारा सिंह व श्रीमती जसवीर कौर पुत्र बलवन्त सिंह पुत्र हजारा सिंह समभाग 1/8 भाग; जसवन्त सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र हजारा सिंह पुत्र प्रताप सिंह समभाग 1/16 भाग; हजारा सिंह पुत्र प्रताप सिंह 13/16 भाग निवासी फरीदाबाद।
		व्यक्तिगत	कृषि	49//4	0.3464	श्रीमती देववती विधवा व चरण सिंह, सुरजीत पुत्र व श्रीमती विशनवती, राधा पुत्रीयान सिंह राम पुत्र उदय राम समभाग 1/4 भाग व श्रीमती भगवान वती विधवा व देशराज सिंह, महावीर, गोपाल सिंह पुत्र व श्रीमती गीता पुत्रीयान दर्शन पुत्र उदय राम 1/4 भाग, हरचन्द, डालचन्द पुत्र उदय राम पुत्र राम दयाल समभाग 1/2 भाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	49//5/1	0.2170	श्रीमती देववती विधवा व चरण सिंह, सुरजीत पुत्र व श्रीमती विशनवती, राधा पुत्रीयान सिंह राम पुत्र उदय राम समभाग 1/4 भाग व श्रीमती भगवान वती विधवा व देशराज सिंह, महावीर, गोपाल सिंह पुत्र व श्रीमती गीता पुत्रीयान दर्शन पुत्र उदय राम 1/4 भाग; हरचन्द, डालचन्द पुत्र उदय राम पुत्र राम दयाल समभाग 1/2 भाग।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		व्यक्तिगत	कृषि	49//6/2	0.0463	श्रीमती देववती विधवा व चरण सिंह, सुरजीत पुत्र व श्रीमती विमलवती, राधा पुत्रीयान सिंह राम पुत्र उदय राम सम्भाग 1/4 भाग व श्रीमती भगवान वती विधवा व देशराज सिंह, महावीर, गोपाल सिंह पुत्र व श्रीमती गीता पुत्रीयान दर्शन पुत्र उदय राम 1/4 भाग, हरचन्द, डालचन्द पुत्र उदय राम पुत्र राम दयाल सम्भाग 1/2 भाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	36//18/1	0.0717	सिविल पंचायत देह (खानाकाशत): रामजीलाल पुत्र प्रताप पुत्र छित्तर देहलीदार ग्रामवासी।
	(6) जटौला	व्यक्तिगत	कृषि	20//18/1	0.0163	मुन्नी राम, छाजूराम, सूबे सिंह, फतेह सिंह पुत्र धानू उर्फ घनीराम सम्भाग 5/8 साकिन देह: पवन, प्रवीन, नवीन पुत्र जगदीश पुत्र नन्दा सम्भाग 3/8
		व्यक्तिगत	कृषि	21//28	0.0371	रोहताष पुत्र राहदीन उर्फ शायीसिंह पुत्र राजूदीन
		व्यक्तिगत	कृषि	22/27	0.0037	जीत राम, पृथी, ईश्वर, ब्रिजे उर्फ ब्रिजलाल, मुन्नीलाल, घसीटा, रघुनाथ पुत्र रामजान पुत्र कालू, लज्जी, मोहर सिंह, रूबी पुत्र कन्नी पुत्र मामन
	(7) आसौटी	व्यक्तिगत	कृषि	54//1/3	0.0042	मनीराम, चन्द पाल पुत्र और श्रीमती सन्तोष पुत्री हरचन्द सम्भाग 78/389, वीरपाल पुत्र हरचन्द पुत्र उदा 4/389 भाग, रामफूल 117/389 भाग पुत्र और श्रीमती जगसे रानी, रामपाली पुत्री मंगला पुत्र उदा सम्भाग 51/389, रतन पाल पुत्र प्रेम सिंह पुत्र सुख सिंह और नरेन्द्र कुमार पुत्र जय राम पुत्र कलवा सम्भाग 48/389 ग्राम वासी।
	(8) लाडपुर	व्यक्तिगत	कृषि	14//10/2	0.0003	श्रीमती श्यामवती विधवा 1/4 भाग और समय वीर, राजेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्र राज सिंह पुत्र गिरधारी लाल सम्भाग 3/4 भाग।
		व्यक्तिगत	कृषि	16//5/2	0.0530	देवी राम पुत्र छाजू पुत्र दुलीया।
		व्यक्तिगत	कृषि	16//10/1	0.0005	राजपाल, हरिचन्द पुत्र राममूला, धन सिंह और प्रकाश, जय प्रकाश पुत्र और विमला, वीना, प्रेमवती, मिथलेश पुत्री और श्रीमती सोमती विधवा दालचन्द पुत्र इन्दर, शिव सिंह पुत्र इन्द्र पुत्र जयसिंह; श्रीमती गीता विधवा और सोनू पुत्र और सन्तोष, लक्ष्मी, रेखा पुत्री रोहताष पुत्र बलवीर, विजेन्द्र पुत्र श्रीमती नत्थीया विधवा पुत्र इन्दर साकिन देह असावती।

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉरीडोर]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2012

S.O. 2887(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1642 (E), dated the 15th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th July, 2012 and issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of execution of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Haryana:

And, whereas, the substance of the said notification has been published in daily local newspapers, namely, Hindustan, dated the 23rd August, 2012 and The Indian Express, dated the 23rd August, 2012 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act,

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Haryana.

Name of the District : Patwal

Name of the Taluk : Patwal

Serial Number	Name of the Village	Type of the Land	Nature of the Land	Khasra Number / Plot Number	Area to be Acquired (in Hectare)	Name of the land Owners / Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Parauli	Private	Agriculture	53//16	0.0002	Jaichand s/o Mohanlal s/o Dal Sahay
		Private	Agriculture	53//25	0.0002	Jaichand s/o Mohanlal s/o Dal Sahay
		Private	Agriculture	54//21	0.0240	Ramchander s/o Lahri, Satbeer s/o Chaitee, Shri Chander widow and Dal Chand, Raj Kumar, Gulab s/o and Smt. Anita, Devki d/o Kishan Lal and Smt. Shanti Devi widow and Jagdish s/o and Koyal s/o Jugal Kishore, Jai Chand s/o Mohan Lal
		Private	Agriculture	56//6	0.0401	Ratanlal s/o Rajmal s/o Kanwar Singh
		Private	Agriculture	56//7	0.0044	Ratanlal s/o Rajmal s/o Kanwar Singh
		Private	Agriculture	52//23	0.0001	Panchayat Deh
		Private	Agriculture	52//24	0.0022	Panchayat Deh
2.	Dahlaka	Private	Agriculture	3//7	0.0057	Smt. Kamlesh W/o Krishan Chand, s/o Jailal Omveer, Mahender, Mahesh s/o Bhudram d/o Buddhi s/o Kaur Sadhu Ram s/o Dungar Singh and Mehar Chand s/o Hardan Chand, Hukum Singh, Tejram, Chetram, Moharram, Satish Kumar s/o Sohna Lal, Satbir Singh, Vijay Singh s/o Bhagwat ; Manju d/o Hakum Chand, Vijay Pal s/o Prehlaad
		Private	Agriculture	4//14	0.0011	Smt. Kamlesh W/o Krishan Chand, s/o Jailal Omveer, Mahender, Mahesh s/o Bhudram d/o Buddhi s/o Kaur Sadhu Ram s/o Dungar Singh and Mehar Chand s/o Hardan Chand, Hukum Singh, Tejram, Chetram, Moharram, Satish Kumar s/o Sohna Lal, Satbir Singh, Vijay Singh s/o Bhagwat ; Manju d/o Hakum Chand, Vijay Pal s/o Prehlaad
3.	Kalwaka	Private	Agriculture	61//1	0.0993	Azad, Juber Khan s/o Naseeb Khan s/o Badlu ; Sharif, Haneef Khan, Jaan Mohammad s/o Badlu S/o Niwaz Khan, Lehru s/o Noor Khan s/o Saap Khan, Hurmat, Samsudin s/o Noor s/o Saap Khan, Akhtar, Irsha s/o Sallu s/o Noor, Ahmad, Ishab s/o Pehlu s/o Noor, Ajru s/o Idrish s/o Pehlu billa raham sahu s/o Umar Mohammad and Ali Sher s/o Akbar billa raham moharram s/o Har Govind mukhrim Gram wasi Richpali w/o Rambeer Singh s/o Natthi singh and Smt. Jagwati w/o Shyam Singh s/o Natthi Singh and Ramesh Dev w/o Dharam singh s/o Natthi singh and Smt. Bimla Devi w/o Karam Singh s/o Natthi singh; Smt. Jagwati w/o Azad Singh s/o Natthi singh niwasi Pali distt. Fardabad

4592 4/12-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Private	Agriculture	56//7/2	0.0345	Dilsukh s/o Bhiku s/o Bhola 1555/1710 share and Sheesh Pal s/o Dilsukh
4.	Chhapraula	Private	Agriculture	53//5/1	0.0134	Ved Prakash, Braham Prakash s/o Balbeer Singh eq sh 1/3 sh Jayparkash, Bharat, Satya Parkash s/o Parveen Singh eq sh. 2/3 share niwasi
		Private	Agriculture	49//16	0.0008	Shobhram s/o Saavliyan s/o Balwant
		Private	Agriculture	49//17/1/1	0.0958	Shobhram s/o Saavliyan s/o Balwant
		Private	Agriculture	50//6	0.0007	Jagram s/o Smt. Shivkaur d/o Ram Lal
		Private	Agriculture	50//11	0.0003	Shehdev, Jaydev s/o 41/100 share; Smt. Mahinderi 9/100 share widow Girraj s/o Dev Karan and Khillan s/o Dev Karan s/o Kharkiya 1/2 share
		Private	Agriculture	50//15	0.0004	Jasram s/o Smt. Shiv Kaur d/o Ram Lal gram wasi
		Private	Agriculture	50//20	0.0004	Shobhram s/o Saavliyan s/o Balwant
5.	Pirthala	Private	Agriculture	23//22	0.0076	Shamlal s/o and Smt Har Mukhi Harpyari Somati, Balvanti d/o Gayayo d/o Lajaram, Ghanshyam, Veerwati d/o Lajaram, Sukhdev and s/o Jagbeer Singh, Jagat Singh s/o Ranji Lal and Gajender s/o Madanlal (Khankhast) and Karodimal s/o Manbhar and Prem Singh s/o Hukum Singh and Deepak s/o Prem Singh and Ram Kishan, Ram Singh, Kishan Singh s/o Chokhram s/o Rama Sachin Kumar s/o Smt. Satyavati widow Raghveer equal share (Khast mushtriyan)
		Private	Agriculture	23//26	0.0654	Ratan s/o Ramphool s/o Rup Ram; Hetram S/o Rup Ram s/o Malkhan, Gangadas urf. Rajpal s/o Rambhajan s/o Lakkha, Prem Prakash etc. Muh khewat no. 187; Smt. Dhanwanti widow and Leelwati s/o and Lekhram, Ram singh s/o Karan Singh s/o Dhanshyam; Bale Ram s/o Durga Prasad s/o Laal singh; Jagram s/o Durga Prasad s/o Laal singh s/o Dhan Singh etc. muh khewat no. 201; Smt. Shanti etc. muh khewat no. 212; Pyare s/o Jorawar s/o Ranglal.
		Private	Agriculture	37//12	0.0037	Bijendra Singh, Rajendra Singh, Rajpal s/o Shri. Chand s/o Tota Ram; Hari Singh s/o Smt. Bhagwati widow and Smt Shyam wati, Kiran wati, Harwati d/o Natthi s/o Mawasi eq. Share; Smt. Bhagwati Devi w/o Khushi Ram gram wasi.
		Private	Agriculture	36//17/2	0.0118	Smt. Kashtoori widow and Naresh Kumar, Ramesh s/o Nand Lal s/o Ramji Lal eq. Share 1/3 share; Basant Lal s/o Ramji Lal s/o Pratap 1/3 share; Chokhram S/o Shiv charan s/o Ramji Lal 1/3 share
		Private	Agriculture	36//18/2	0.1014	Smt. Kashtoori widow and Naresh Kumar, Ramesh s/o Nand Lal s/o Ramji Lal eq. Share 1/3 share; Basant Lal s/o Ramji Lal s/o Pratap 1/3 share; Chokhram S/o Shiv charan s/o Ramji Lal 1/3 share

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Private	Agriculture	36//24/2	0.0117	Dharampal, Mahaveer, Ashok, Jagveer s/o Rati Ram s/o Kirori eq. Sh.
		Private	Agriculture	36//27	0.0548	Natthi Mustil khewat no. 336; Smt. Dhapo etc. Mustil khewat no. 347; Fateh Ram s/o Natthan s/o Hukammi; Smt. Kashtoori etc. Mustil khewat no. 1066; Dev Ratan etc. Mustil khewat no. 1067; Nawal Singh etc. Mustil khewat no. 1076 Gram wasi
		Private	Agriculture	49//11/1	0.0223	Smt. Sharda w/o Naveen Kumar, Naresh Kumar, Hari Om s/o Ramesh Chand s/o Roop Chand 1/3 eq. sh.
		Private	Agriculture	51//2	0.0757	Jagdish s/o Govind Singh s/o Fathe Ram
		Private	Agriculture	51//26	0.0899	Ravi Kaptan s/o Vir Singh s/o Har Dayal ; Ajaan, dayanand s/o Safia s/o Har Dayal ; Sahil s/o Dharanbir s/o Har Dayal ; Smt. Khiliya widow Fateh Ram ; Nahar Singh, Dharambir Singh s/o Smt. Sunheri d/o Balu ; Giriraj Singh s/o Fateh Ram ; Raj Kumar, Jagdish s/o Govindram
		Private	Agriculture	49//26	0.0337	Smt. Harjeet Kaur w/o Jaswant Singh s/o Hajara Singh and Smt. Jasveer Kaur s/o Balwant Singh s/o Hajara Singh eq. Share 1/8 share; Jaswant Singh, Balwant Singh s/o Hajara Singh s/o Pratap Singh eq. Share 1/16 share; Hajara Singh s/o Pratap Singh 13/16 share niwasi Faridabad
		Private	Agriculture	49//4	0.3464	Smt. Dewwati widow and Charan Singh, Surjeet s/o and Smt. Vishanwati, Radha d/o Singh Ram s/o Uday Ram eq. sh 1/4 sh and Smt. Bhagwan Wati widow and Deshraj Singh, Mahaveer, Gopal Singh s/o and Smt. Gita d/o Darshan s/o Uday Ram 1/4 sh ; Harchandi, Dalchand s/o Udayram s/o Ram Dayal eq. sh 1/2 share
		Private	Agriculture	49//5/1	0.2170	Smt. Dewwati widow and Charan Singh, Surjeet s/o and Smt. Vishanwati, Radha d/o Singh Ram s/o Uday Ram eq. sh 1/4 sh and Smt. Bhagwan Wati widow and Deshraj Singh, Mahaveer, Gopal Singh s/o and Smt. Gita d/o Darshan s/o Uday Ram 1/4 sh ; Harchandi, Dalchand s/o Udayram s/o Ram Dayal eq. sh 1/2 share
		Private	Agriculture	49//6/2	0.0463	Smt. Dewwati widow and Charan Singh, Surjeet s/o and Smt. Vishanwati, Radha d/o Singh Ram s/o Uday Ram eq. sh 1/4 sh and Smt. Bhagwan Wati widow and Deshraj Singh, Mahaveer, Gopal Singh s/o and Smt. Gita d/o Darshan s/o Uday Ram 1/4 sh ; Harchandi, Dalchand s/o Udayram s/o Ram Dayal eq. sh 1/2 share
		Private	Agriculture	36//18/1	0.0717	Civil Panchayat Deh (Khankhast) ; Ramjilal s/o Pratap s/o Chittar Dehlidar Gramwasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Jataula	Private	Agriculture	20/18/1	0.0163	Munshi Ram, Chaju Ram, Sube Singh, Fateh Singh s/o Dhannu urf Dhaniram eq sh. 5/8 sakindeh; Pawan, Parveen, Naveen s/o Jagdih s/o Nanva eq. Sh. 3/8
		Private	Agriculture	21/28	0.0371	Rohtash s/o Shay Deen urf Shayo Singh s/o Raju Deen
		Private	Agriculture	22/27	0.0037	Jeet Ram, Prithi, Ishwar, Brije urf. Brij Lal, Munni Lal, Ghasita, Ragunath s/o Ram Jaan s/o Kallu, Lajji, Mohar Singh, Rubi s/o Kanni s/o Maman
7.	Asawati	Private	Agriculture	54/1/3	0.0042	Mani Ram, Chander Pal s/o and Smt. Santosh d/o Harchand eq. Sh 78/389; Veerpal s/o Harchand s/o Udda 4/389 share; Ramphool 117/389 share s/o and Smt. Jagro Rani, Rampali d/o Mangla s/o Udda eq sh 51/389; Ratan Pal s/o Prem Singh s/o Sukh Singh and Narender Kumar s/o Jai Ram s/o Kalwa eq sh. 48/389 Gram wasi.
8.	Laadpur	Private	Agriculture	14/10/2	0.0003	Smt. Shyamvati w/o 1/4 share and Samay Veer, rajender Singh, Brijender Singh s/o Raj Singh s/o Girdhari Lal eq. Sh. 3/4 share
		Private	Agriculture	16/5/2	0.0530	Devi Ram s/o Chaju s/o Duliya
		Private	Agriculture	16/10/1	0.0005	Raj Pal, Hari Chand s/o Rambhula; Dhan Singh, Om Prakash, Jai Prakash s/o and Vimla, Veena, Prem Wati, Mithlesh d/o and Smt. Somti widow Dalchand s/o Inder; Shiv Singh s/o Inder s/o Jal Singh; Smt. Geeta widow and Sonu s/o and Santosh, Laxmi, Rekha d/o Rohtash s/o Balveer; Vijendra s/o Smt. Nathiya widow s/o Inder Sakin deh Asawati

[F. No. 2010/LML/12/4-Western Corridor]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)